

महादलित टोलों में रहेगी धूम

आरटीएस में नयी सेवाओं की घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री

सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिता का होगा आयोजन

सीएम सहित सभी मंत्री झंडांतोलन में भाग लेंगे

गणतंत्र दिवस



[Enlarge Image](#)

आरटीएस में नयी सेवाओं की घोषणा कर सकते हैं
मुख्यमंत्री

सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिता का होगा
आयोजनसंवाददाता पटना

इस बार 26 जनवरी को महादलित टोले में धूम रहेगी इस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी किसी गांव में जायेंगे किस गांव में जायेंगे, इसका निणय गणतंत्र दिवस के एक दिन पूव लिया जायेगा उनके अलावा सभी मंत्री अपने-अपने जिले में अपनी इच्छानुसार किसी महादलित टोले में जायेंगे वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गणतंत्र दिवस पर लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत नयी सेवाओं की घोषणा करेंगे इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है

सीएम भी जायेंगे

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार बताते हैं कि 15 अगस्त को फुलवारीशरीफ प्रखंड के गांव में गये थे इसी के तज पर गणतंत्र दिवस पर भी वह गांव में जायेंगे मंत्रियों के अलावा सभी विधायकों से महादलित टोलों में जाने के लिए अनुरोध किया जायेगा इसका मकसद महादलित समुदाय के लोगों के बीच आत्मविश्वास बढ़ाना है

दी जायेगी जानकारी

प्रधान सचिव ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर महादलित टोलों को स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के बारे में तो बताया ही जायेगा, साथ में उनके कल्याण के

लिए चलायी जा रही योजनाओं के बारे में बताया जायेगा इस समुदाय के लोगों को लोक सेवा का अधिकार कानून की उपलब्धियों व उसके लाभ के बारे में भी बताया जायेगा इस सेवा को कैसे लाभ लिया जा सकता है, उससे उन्हें अवगत कराया जायेगा

क्या क्या होगा

गणतंत्र दिवस पर महादलित टोले में प्रातः आठ बजे टोले के सबसे बुजुग झंडोत्तोलन करेंगे झंडोत्तोलन में प्रयोग होने वाले बांस, खंभा, सुतली, झंडा व मिठाई के लिए 500-500 रुपये दिये जायेंगे बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिता आयोजित किये जायेंगे इसके अलावा स्थानीय खेल प्रतियोगिता भी होगी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जायेगा पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए ग्राम सेवक/ जनसेवक व शिषाक को नामित अधिकारी घोषित किया जायेगा कार्यक्रम के पूर्व वह महादलित टोलों में रहने वाले लोगों की बैठक कर आयोजन की तैयारी करेंगे